

**गोरखपुर में स्थापित किए जा रहे एम्स के सम्बन्ध में
मुख्यमंत्री की उपस्थिति में भारत सरकार तथा उत्तर
प्रदेश सरकार के बीच एम०ओ०यू० हस्ताक्षरित**

**गोरखपुर में एम्स की स्थापना होने से क्षेत्र के लोगों को
इलाज के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी : मुख्यमंत्री**

**केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव तथा प्रदेश
की अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा ने एम०ओ०यू० पर हस्ताक्षर किए**

एम्स की स्थापना पर लगभग 1,750 करोड़ रु० की लागत आएगी

गोरखपुर एम्स में 750 बेड होंगे

लखनऊ : 13 जुलाई, 2017

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में आज यहां शास्त्री भवन में गोरखपुर में स्थापित किए जा रहे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एम०ओ०यू० हस्ताक्षरित किया गया। भारत सरकार की ओर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पी०एम०एस०एस०वाई० डिवीजन के संयुक्त सचिव श्री सुनील शर्मा तथा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चिकित्सा शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ० अनीता भटनागर जैन ने एम०ओ०यू० पर हस्ताक्षर किए।

एम०ओ०यू० पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके माध्यम से अब गोरखपुर में एम्स की स्थापना तीव्र गति से हो सकेगी और इस क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि गोरखपुर जनपद में वर्तमान में एकमात्र बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज ही उपलब्ध है, जिस पर समीपस्थ जनपदों के मरीजों के आने से अत्यधिक दबाव पड़ता है और गम्भीर बीमारियों का उपचार कराने के लिए मरीजों को लखनऊ, दिल्ली इत्यादि जगहों का रुख करना पड़ता है।

अधिकांश रोगियों की स्थिति अत्यन्त गम्भीर होती है कि उनका बचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अब गोरखपुर में एम्स की स्थापना से पूर्वांचल एवं उसके आस-पास के इलाकों तथा अन्य राज्यों की जनता को राहत मिलेगी और उन्हें इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा ने बताया कि एम्स की स्थापना गोरखपुर जनपद के महादेव झारखण्डी गांव में 45.326 हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जा रही है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 22 जुलाई, 2016 को किया गया था। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1,750 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार द्वारा चिन्हित भूमि 90 वर्ष की लीज पर भारत सरकार को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

एम्स को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र फीडर की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में नई मांग के माध्यम से 36 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। प्रस्तावित एम0ओ0यू0 के तहत जिन बिन्दुओं को शामिल किया गया है, उनमें-उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि को लीज पर दिया जाना, चिन्हित स्थल पर 4-लेन एपरोच मार्ग, वॉटर सप्लाई, स्वतंत्र विद्युत फीडर की स्थापना शामिल हैं।

भारत सरकार द्वारा एम्स एक्ट के अनुसार चिन्हित स्थल पर एम्स का निर्माण एवं उसका संचालन किया जाएगा। इसके अलावा, एम्स के संचालन हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों का सृजन एवं उन पर भर्ती आदि की कार्यवाही भी भारत सरकार द्वारा की जाएगी। केन्द्र सरकार मेडिकल/नर्सिंग के पाठ्यक्रमों का संचालन भी सुनिश्चित करेगी। भारत सरकार द्वारा एच0एस0सी0सी0आई0 को प्रारम्भिक गतिविधियों हेतु कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

गोरखपुर में स्थापित किए जा रहे इस एम्स में 750 बेड होंगे। इसमें एक एकेडमिक ब्लॉक होगा और मरीजों के रिश्तेदारों के ठहरने के लिए रैन बसेरे की भी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, इसमें एक ऑडीटोरियम, गेस्ट हाउस का भी निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इसमें 172 आवासों के साथ-साथ 120 छात्रों तथा 240 छात्राओं (कुल 360) के लिए यू0जी0 हॉस्टल की भी स्थापना की जाएगी। साथ ही, 599 विद्यार्थियों के लिए पी0जी0 हॉस्टल तथा 432 नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की भी स्थापना की जाएगी।

गोरखपुर एम्स ओ0पी0डी0 में तीन संकाय होंगे, जिनमें सर्जिकल व अन्य विशिष्टता, मेडिसिन व अन्य विशिष्टता तथा स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग सहित 29 विभाग प्रस्तावित हैं।

गोरखपुर एम्स की स्थायी ओ0पी0डी0 का निर्माण सितम्बर, 2018 तक पूर्ण हो जाएगा, जबकि चिकित्सालय का निर्माण पूर्ण होने की तिथि मार्च, 2019 रखी गई है। एम्स के तहत स्थापित किए जा रहे हॉस्पिटल का निर्माण दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण हो जाएगा, जबकि 300 बेड दिसम्बर, 2019 तक, 500 बेड मार्च, 2020 तक तथा 750 बेड जून, 2020 तक उपलब्ध हो जाएंगे। इस एम्स में स्थापित किए जा रहे ट्रॉमा सेण्टर का कार्य मार्च, 2020 तक पूर्ण हो जाएगा।

इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री आशुतोष टण्डन, चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री श्री संदीप सिंह, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ0 के0के0 गुप्ता, के0जी0एम0यू0 के कुलपति डॉ0 एम0एल0बी0 भट्ट, एस0जी0पी0जी0आई0 के डायरेक्टर डॉ0 राकेश कपूर, आर0एम0एल0 इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉ0 दीपक मालवीया तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।